

भाग -III**हरियाणा सरकार**

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 फरवरी, 2019

संख्या सांका०नि० 12/संवि०/अनु० 309/2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राजस्व (ग्रुप-क) सेवा नियम, 1997, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा राजस्व (ग्रुप-क) सेवा (संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा राजस्व (ग्रुप-क) सेवा नियम, 1997 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में,
 - (i) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“(ख) “वित्तायुक्त राजस्व” से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व ;
 - (ii) खंड (घ) में, उप-खंड (ii) का लोप कर दिया जाएगा।
3. उक्त नियमों में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ;
“5 अर्हताएं तथा अनुभव.— कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो।”।
4. उक्त नियमों में, नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“7 भर्ती का ढंग.—(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,—
(क) **उप सचिव (प्रोजेक्ट इन्चार्ज) (असेट मैनेजमेंट सैल) की दशा में ,—**
 - (i) जिला राजस्व अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;**(ख) जिला राजस्व अधिकारी की दशा में ,—**
 - (i) तहसीलदारों में से पदोन्नति द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
 (2) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।”।
5. उक्त नियमों में, नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“12 अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें.— (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, द्वारा शासित होंगे :
परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।
(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, के नियम 9 के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।”।

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क, ख, ग तथा घ के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :-

“परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

| क्रम संख्या | पदनाम | पदों की संख्या | | | वेतनमान |
|-------------|---|----------------|---------|------|--|
| | | स्थायी | अस्थायी | जोड़ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | उप सचिव [(प्रोजेक्ट इन्चार्ज) (असेट मैनेजमेंट सैल)] | — | 1 | 1 | प्रवेश स्तर —12 सैल—1= रु 78,800 /— |
| 2. | जिला राजस्व अधिकारी | | 35 | 35 | प्रवेश स्तर— 11 सैल—1= रु 67,700 /— |

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 5)

| क्रम संख्या | पदनाम | सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो | सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो |
|-------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | उप सचिव [(प्रोजेक्ट इन्चार्ज) (असेट मैनेजमेंट सैल)] | — | पदोन्नति द्वारा — जिला राजस्व अधिकारी के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव ; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा — (i) अवर सचिव के रूप में छह वर्ष का अनुभव ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा इसके समकक्ष और हिन्दी सहित मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। |
| 2 | जिला राजस्व अधिकारी | — | पदोन्नति द्वारा — (i) तहसीलदार के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव और जिसने तहसीलदार की विभागीय परीक्षा अर्हक कर ली हो। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा हिन्दी सहित मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा — (i) तहसीलदार के रूप में छह वर्ष का अनुभव और जिसने तहसीलदार की विभागीय परीक्षा अर्हक कर ली हो ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा हिन्दी सहित मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। |

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 12 (1)]

| क्रम संख्या | पदनाम | नियुक्ति प्राधिकारी | शास्ति का स्वरूप | शास्तियाँ लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी | अपील प्राधिकारी |
|-------------|---|---------------------|--|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | उप सचिव [(प्रोजेक्ट इन्चार्ज) (असेट मैनेजमेंट सैल)] | सरकार | (1) छोटी शास्तियाँ हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट। | अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व | सरकार |
| 2 | जिला राजस्व अधिकारी | | (2) बड़ी शास्तियाँ हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट। | सरकार | सरकार |

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 12 (2)]

| क्रम संख्या | पदनाम | आदेश का स्वरूप | आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी | अपील प्राधिकारी |
|-------------|---|---|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | उप सचिव [(प्रोजेक्ट इन्चार्ज) (असेट मैनेजमेंट सैल)] | (क) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय साधारण/ अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; | अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व | सरकार ।” । |
| 2 | जिला राजस्व अधिकारी | (ख) सेवा के सदस्य की, उसके अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा, नियुक्ति की समाप्ति । | | |

केशनी आनंद अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT**REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT****Notification**

The 22nd February, 2019

No. G.S.R.-12/Const./Art. 309/2019.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further amend the Haryana Revenue (Group-A) Service Rules, 1997, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Revenue (Group-A) Service (Amendment) Rules, 2019.
2. In the Haryana Revenue (Group-A) Service Rules, 1997 (herein after called the said rules), in rule 2,-
 - (i) clause (b), the following clause shall be substituted, namely :-

‘(b) “Financial Commissioner Revenue” means the Additional Chief Secretary and Financial Commissioner Revenue ;’;
 - (ii) In clause (d), sub clause (ii) shall be omitted.
3. In the said rules, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely :-

“5. Qualification and experience.- No person shall be appointed to the Service unless he is in possession of qualification and experience specified in column 4 of Appendix B to these rules.”.
4. In the said rules, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely :-

“7. Method of recruitment.-(1) Recruitment to the Service shall be made,-

 - (a) in the case of Deputy Secretary [(Project In charge) (Asset Management Cell)] -
 - (i) by promotion from amongst the District Revenue Officers; or
 - (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of the Government of India or a State Government ;
 - (b) in the case of District Revenue Officer-
 - (i) by promotion from amongst Tehsildars ; or
 - (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of the Government of India or a State Government ;

(2) Appointment by promotion shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions .”.
5. In the said rules, for rule 12, the following rule shall be substituted, namely:-

“12 Discipline, penalties and appeals.- (1) In the matter relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law of rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The Authority competent to pass an order under rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, shall be as is specified in Appendix D to these rules.”.

6. In the said rules, for Appendices A, B, C and D the following Appendices shall be substituted, namely:-

Appendix A

(See rule 3)

| Serial Number | Designation of Posts | Number of posts | | | Scale of Pay |
|---------------|--|-----------------|-----------|-------|-------------------------------|
| | | Permanent | Temporary | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Deputy Secretary (Project In charge) (Asset Management Cell) | - | 1 | 1 | Level -12 i.e Rs. 78,880/- |
| 2 | District Revenue Officer | | 35 | 35 | Level -11 i.e Rs. 67,770/- |

Appendix B

(See rule 5)

| Serial Number | Designation of Posts | Academic qualification and experience, if any, for direct recruitment | Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment |
|---------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Deputy Secretary [(Project In charge) (Asset Management Cell)] | - | By promotion- Five years experience as District Revenue Officer ; By transfer or deputation- (i) Six years experience as Under Secretary ; and (ii) Graduate or its equivalent from a recognized university and should have passed matriculation or its equivalent examination with Hindi. |
| 2 | District Revenue Officer | - | By promotion- (i) Five years experience as Tehsildar and who has qualified departmental examination of Tehsildar ; and (ii) Graduate or its equivalent from a recognized university and should have passed matriculation or its equivalent examination with Hindi. By transfer or deputation- (i) Six years experience as Tehsildar and who has qualified departmental examination of Tehsildar ; and (ii) Graduate or its equivalent from a recognized university and should have passed matriculation or its equivalent examination with Hindi. |

Appendix C

[See rule 12 (1)]

| Serial Number | Designation of Posts | Appointing Authority | Nature of Penalty | Authority empowered to impose penalty | Appellate Authority |
|---------------|--|----------------------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Deputy Secretary [(Project In charge) (Asset Management Cell)] | Government | Minor Penalties- As specified in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016. | Additional Chief Secretary and Financial Commissioner Revenue | Government |
| 2 | District Revenue Officer | | Major Penalties- As specified in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016. | Government | Government |

Appendix D

[See rule 12 (2)]

| Serial Number | Designation of Posts | Nature of order | Authority empowered to make the order | Appellate Authority |
|---------------|--|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Deputy Secretary [(Project In charge) (Asset Management Cell)] | (a) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pensions; | Additional Chief Secretary and Financial Commissioner Revenue | Government.”. |
| 2 | District Revenue Officer | (b) terminating the appointment otherwise on his attaining the age fixed for superannuation. | | |

KESHNI ANAND ARORA,
 Additional Chief Secretary and Financial
 Commissioner to Government Haryana,
 Revenue and Disaster Management Department.